

संक्षिप्त समाचार

नावगन्तुक देवरी चौकी प्रभारी ने लिया चार्ज



मऊरानीपुर (झाँसी)। कोतवाली क्षेत्रांतर्गत आने वाली देवरी चौकी प्रभारी का चार्ज ज्योतिरिशेखर मोहन लाल दीक्षित को सौंपा गया। जिसमें चार्ज लेते ही अपराधों पर नकल लगाने को लेकर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिये पूर्ण रूप से चौकी प्रभारी तैयार देखे जा रहे हैं। वहीं प्रहकारों में दी जानकारी में बताया गया कि उनके क्षेत्र में अपराध कम हो रहे हैं।

कृषि विभाग के कार्मिकों केटीकाकरण किया गया

पानी पाली नेशनल सोसाईटी। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सोडासस किसान सेवा केंद्र कृषि पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुपुतल द्वारा बताया गया कि कोष-19 वैकिसंग टीकाकरण को लेकर जिले के बागड अस्पताल में कृषि विभाग के अंतर्गत कार्मिकों के टीकाकरण किया गया। जिसमें कृषि पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुपुतल ने कार्मिकों के टीकाकरण किया गया।

आगामी चुनाव को लेकर काँग्रेसियों की हवी बैठक

मऊरानीपुर (झाँसी)। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगमी तेज हो गयी है। जिला पंचायत के चुनावों को लेकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भगवान दास कोरी की अध्यक्षता में हवी बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत का चुनाव पूरी दमनक से लड़ने का निर्णय लिया गया।

सक दुर्घटना में दो घायल

मऊरानीपुर (झाँसी)। विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में दो व्यक्ति घायल हो गये। प्राण विभाग में रात पांच (25) घण्टे भारत निवासी लालचरण, साबल बहादुर (52) पुत्र संजय लाल निवासी लखनऊ को प्राथमिक उपचार के लिये सवाईकुंजी स्वास्थ्य केंद्र लाना गया।

दो व्यक्तियों ने किया जहर का सेवन

मऊरानीपुर (झाँसी)। अज्ञात कारणों के चलते अलग-अलग स्थानों पर दो व्यक्तियों ने जहर का सेवन कर लिया। प्राण विभाग में फोनद्वारा (25) पुत्र संजय लाल निवासी लखनऊ को प्राथमिक उपचार के लिये सवाईकुंजी स्वास्थ्य केंद्र लाना गया।

शोकसभा

मऊरानीपुर (झाँसी)। नगर के मुखाला गाँव निवासी विधायक देवकी जैन की निधन का समाचार पर एक शोकसभा प्रारंभ की।

स्थानीय प्रशासन की उदासीनता सवालों के घेरे में

गर्मी आयी नहीं, जल का संकट मडराना प्रारम्भ

सुखनई नदी में माऊ और गन्दीगी का अम्बार वहीं मुहल्ला गाँधीगंज में महीनों से पानी की किल्लत, लाईन पडी खराब



लेकिन इस ओर उनका कोई भी ध्यान आकृष्ट ही नहीं हो रहा है। आखिर में स्थानीय प्रशासन की इस ओर नजर क्यों का विषय बना हुआ है।

का झल बेखल होता देखा जा रहा है। तो भीषण गर्मी में मऊरानीपुर वास्वियों एवं क्षेत्र के आसपास के लोगों की दशा कितनी दर्दनीय होगी ये स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस ओर ध्यान आकृष्ट ही नहीं किया।

बिजली बिल समय पर जमा नहीं करने वालों की होगी कुर्की सभी लोगों को किए नोटिस जारी

रिवरफ्रंट ड्रॉव 117 फरवरी को दो कंपनियों गती करेगी

मऊरानीपुर (झाँसी)। बिजला रोजगार कार्यालय मूरान के तत्वावधान में 17 फरवरी 2021 को रिवरफ्रंट ड्रॉव 17 फरवरी 2021 को बिजला रोजगार कार्यालय परिसर चकल कालीनी मूरान में आयोजित होगा।

किसानों की ककवारा में लगी विशाल किसान पंचायत



ककवारा की जगहों। इन समस्याओं को लेकर अनेक मींग डकली में करे लिये गये।

जौरीगांव में जल शक्ति अभियान के तहत नुकड़ नाटक का आयोजन किया गया

मऊरानीपुर (झाँसी)। जल शक्ति अभियान के तहत जौरीगांव में जल शक्ति अभियान के तहत नुकड़ नाटक का आयोजन किया गया।

राम मंदिर निर्माण के लिए पूर्व विधायक राकेश सुक्ला ने किए एक लाख 11,000 हजार रुपए का समर्पण

मैगाथ की राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान अपने अंतिम दौर में है देवधर में राम मंदिर के निर्माण के लिए राम में शालि कर दिया है राम मंदिर के लिए राम में शालि कर दिया कर दान दे रहे हैं इस अभियान में मैगाथ के पूर्व विधायक राकेश सुक्ला ने भी राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान के कार्यालय नुनान कुडी मैगाथ पहुंच कर अपना समर्पण किया राकेश सुक्ला ने करी 10000 के त्वाग बलिदान को आज समर्पण कर लिया है

लॉकडाउन के बाद भी काफी व्यस्त रही अहाना



पुंबई। अभिनेत्री अहाना कुमारा साल 2020 में महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद भी वे काम में काफी व्यस्त रही। इसे लेकर वह काफी खुश हैं। अहाना का कहना है कि इससे बड़ी बात जिसका मुझे एहसास हुआ वह यह है कि 2020 में लॉकडाउन के बाद भी मेरा अभिनय का काम चलता रहा, जो एक बड़ा आशीर्वाद है। 2020 में मेरे कई शो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए और बाहरी व्यक्त होने के नाते मैं किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं हूँ। ना कोई पब्लिक रिलेशन से जुड़ी एंक्टिविटी शामिल हैं।

मेरे पास स्क्रीन पर दिखने का एकमात्र तरीका है मेरा काम। चूंकि शो की रिलीज से पहले कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज भी नहीं हुई थी इसलिए यह फिर से साबित हो गया है कि एक अभिनेता के लिए उसका अभिनय कौशल ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अहाना ने कहा कि इसने कभी स्टूडेंट बनने के बारे में ना सोचा ना सपना देखा लेकिन मैं एक लालची अभिनेत्री हूँ। इसलिए मैं थियटर, वेब सीरीज में काम कर रही हूँ। शुरूआत में टीवी पर काम कर चुकी हूँ और सिनेमा भी कर रही हूँ। मैं अभिनय को एक नौकरी के रूप में देखती हूँ, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अहाना ने कहा कि अभिनेत्री को 90% बावरी छोरी नाम की अगली वेब फिल्म में देखा जाएगा। इसमें रुमाना मोहब्बत, विक्रम कोचर और निकी वालिया भी हैं। फिल्म का 11 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म इरोस नाउ पर प्रीमियर होना है।

अभिनेत्री अहाना पांडे की मां भावना पांडे ने खुद को बताया एक प्रोटेक्टिव मां



पुंबई। बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे की खूबसूरत बेटी और बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री अहाना पांडे को कई बार साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह बहुत सकारात्मक इंसान हैं और अपने बिलाल कभी गई बातों से निराश नहीं होती हैं। उनकी मां भावना पांडे ने खुद को एक प्रोटेक्टिव मां बताते हुए अपनी बेटी के बारे में ये बातें साझा की हैं। भावना ने बताया, हाँ, मैं उसकी रक्षा करती हूँ, जिस तरह हर मां अपने बच्चे की करती है। पब्लिक डोमेन में होने के कारण उसे लेकर लोग कई तरह के जर्जर भी देते हैं। भावना ने कहा कि शुरू में वह अपनी बेटी के बारे में किए गए कमेंट्स को पढ़कर परेशान हो जाती थीं। उन्होंने कहा, शुरूआत में मैं हर कमेंट पढ़ती थी और बहुत परेशान हो जाती थी, फिर जैसे-जैसे समय बीता, मुझे उस सब को आदत हो गई है। उसने कहा कि अहाना ने अपने पिता, अभिनेता चंकी पांडे से सकारात्मक रहने की आदत ली है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अहाना अपने पिता की तरह बहुत सकारात्मक हैं। वह खुश रहती हैं और ज्यादातर चीजों को दिल पर नहीं लेती हैं। वह इसलिए उदास नहीं हो जाती हैं कि किसी ने उसके बारे में कुछ कहा है।

खुश रहने के बहाने खोजें, व्यायाम से रहें फिट

व्यायाम सभी को करना चाहिये। इससे हम फिट रहते हैं। अगर आप हर दिन 30 से 40 मिनट व्यायाम करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से दूर रहेंगे एक सर्वश्रेष्ठ में कहा गया है अगर कोई आदमी 70 साल का है और हर रोज व्यायाम करता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से भी दूर रहता है। स्वस्थ रहने के लिए यह सबसे बड़ा उपाय है। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की बहुत जरूरत होती है क्योंकि आप जानते हैं ज्यादातर बीमारी गलत आहार से होती है। इसलिए संतुलित आहार को अपनाएं। इसके साथ ही 3 से 5 लीटर पानी पिएं। फल और सब्जी भी खाएं, खाने को चबाकर खाएं, रात में कम खाना कम खाएं, किसी भी एक चीज का ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। यह आपके जिंदगी का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। लोग इस पर ध्यान कम देते हैं। निराशाजनक माहौल से दूर रहें, सोते समय ना सोचें, कमाई से अधिक खर्च ना करें, किसी से



जुटा बाद ना करें, जिसको आप पूरा ना कर सके, बिना मतलब का कुछ ना सोचें हैं। अच्छे लोगों से मिलें हैं और उसे दोस्त करें खुब हंसे और दूसरे को हंसाने की कोशिश करें। दिमाग का सीधा रिश्ता दिल से होता है अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपका ब्रड प्रेशर बढ़ता है जिस से बहुत सारी

बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट अटैक आदि। अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें जल्दी सोएं और जल्दी जगे। चिंता, क्रोध, शोक, शक और दुस्तरों से अधिक उम्मीद ना करें। वैज्ञानिक मानते हैं कि नींद सबसे बड़ी दवा है आप गौर कीजिए जब आप एक काम करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अगर आप गहरी नींद से सोते हैं तो सुबह अपने आप को तरोताजा पाते हैं। इसीलिए, कहा जाता है अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। कम नींद होना या ज्यादा नींद का होना इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन से पाया गया है कि 8 घंटा से ज्यादा और 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। सोते समय सोचना नहीं चाहिए जिससे आपका नींद खराब होता है और आप सही सोच भी नहीं पाते हैं क्योंकि आप थके हुए होते हैं। लोग अपनी बीमारियों को डालने की कोशिश करता है या फिर अपनी बीमारियों को छुटलाता है कि मुझे यह बीमारी नहीं है इसका चयन स्वयं करें। डॉक्टरों

सलाह अवश्य तें समय रहते अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आप का इलाज कम खर्च में जल्दी हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आप हर रोज पांच अलग रंग का फल खाएं। संडे हर दिन एक अंडे का प्रोटीन खाएं। आपका पानी तीन से 5 लीटर हर दिन पीने की कोशिश करें। दूध का इस्तेमाल करें चाय पीने में दूध का इस्तेमाल होना इसे दूध का सेवन ना करना जाता है दूध पिएं है या धूप से बना हुआ खाना खाएं। सिर्फ अपने आपको कामनाएं वयस्त रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप काम भी करें साथ ही साथ खुश रहने के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाएं जैसे खेले बूट में भाग लें, फिल्में देखना, अपने मनपसंद दोस्त से मिलना, घूमने जाना, मजाकिया आदत रखना, और मनपसंद खाना खाना आदि। स्वस्थ रहने के लिए हाइजीन का होना बहुत जरूरी है सिर्फ अपने आप को साफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है।

स्वस्थ रहने करें हर्ड का उपयोग

स्वस्थ रहने के लिए हर्ड का प्रयोग नियमित करना चाहिए। शास्त्र में इसकी सात जातियां बतायी गयी हैं। विजया, रोहिणी, पुतना, अमृता, अथया, जीवंती और चैतकी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से तीन प्रकार की होती है। छोटी हर्ड, पीली हर्ड और बड़ी हर्ड। यह तीनों एक ही वृक्ष के फल है। यह कॉम्प्लेक्स परिवार का पीधा है। इसका उपयोगी भाग फल है। इसका वृक्ष विशाल लगभग 80-100 फीट ऊंचा होता है। फूल छोटा, सफेद या पीले रंग का होता है। फल एक से डेढ़ इंच लंबा अंडाकार, पूछ भाग पर पांच रखाओं से युक्त, कच्चा में हरा, पकने पर धूसर पीला रंग का हो जाता है।



प्रत्येक फल में एक बीज होता है। पके हुए फलों का संग्रहण अग्रेल-मई माह में करना चाहिए। यह कफ वात व पित्त जनित रोगों में उपयोगी है। पाचन शक्ति बढ़ती है। खांसी, सांस, कुष्ठ, बवासीर, पुतना

करती है। इसका सेवन बरसात में संधा नमक के साथ, जोड़ों में मिश्री के साथ, हेमेट जड़ु में सोंठ के साथ, बसंत जड़ु में शहद के साथ, गर्मी में गुड़ के साथ करना चाहिए। खाना खाने से पहले इसे लेने से भूख बढ़ती है। बाद में खाने से खाना आसानी से पचता है छोटी हर्ड का चूर्ण लगभग चार से छह ग्राम रात में भोजन करने के एक से दो सेंटे बाद पानी के साथ प्रयोग करने से कब्ज की समस्या दूर होती है। इसका चूर्ण गुड़ व गिलोय के काढ़े के साथ प्रयोग करने से गलिया में आराम मिलता है। इसे तंत्रक की तरह विराम में रखकर पीने से सांस की समस्या दूर होती है।

पैरों का फैट घटाने करें ये उपाय



अगर आप अपने शरीर के निचले हिस्से के अधिक फैट से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने खान-पान में कुछ बदलाव करने होंगे। इस प्रकार के तरीकों को अपनाकर आप अतिरिक्त फैट से राहत पा सकते हैं। आप चीनी से तो दूरी बनाते हैं पर नमक के बारे में सोचना भूल जाते हैं। नमक का सेवन कम करने के बाद आप अपने शरीर में तुरंत बदलाव महसूस करेंगे। शरीर में पर्युस बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हरी सब्जियां, केला, योगर्ट का सेवन करने की जरूरत है। इन चीजों से आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिलता है। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट

आप लेंगे, उतना ही ज्यादा आपका शरीर मांसपेशियों और लिक्वर में पानी स्टोर करेगा। लो कार्ब डाइट से आप हल्का महसूस करते हैं क्योंकि इससे वाटर वेट निकल जाता है। चाय-कॉफी से दिन की शुरुआत ना करें। इसकी जगह जौरा पानी, सॉफ पानी या वैजिटेबल स्मूदी ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पानी पीना फिटना जरूरी है। ज्यादा पानी पीने से आपके शरीर से अतिरिक्त नमक निकल जाता है। किसी भी एक्सरसाइज के मुकाबले शरीर का वजन घटाने में कार्डियो से मदद मिलती है। रनिंग, जागिंग या कुछ खास व्यायाम से आपका वजन घटता है। टोड लेस के लिए रस्सी कूटना भी अच्छा रहता है।

सेब खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद

सेब खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ लोग सेब को छिलकर खाना पसंद करते हैं लेकिन इससे सेब के सारे जरूरी न्यूट्रिन्ट निकल जाते हैं। सेब को छिलकर खाने की बजाए छिलके समेत खाने से आपको कई बीमारियां दूर हो सकती है और यह खाने में भी टेस्टी लगता है। आइए जानते हैं सेब को छिलके समेत खाने से शरीर को क्या फायदे होते हैं। खरबूटिज का समर्थन वाले लोगों को सेब छिलके समेत खाना चाहिए। इसे ऐसे खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। सेब को बिना छिले खाने से आपके ब्रेन सेल डैमेज नहीं होते हैं। इसके अलावा इसे ऐसे खाना से दिमाग



भी तेज होता है। सेब का छिलका आपको आंखों में होने वाली कैटेक्टिक की बीमारी से बचाता है। नियमित सेब खाने से आपको यह बीमारी नहीं होती है। फाइबर के गुणों से भरपूर सेब का छिलका पित्त की थैली में जमा कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपको स्ट्रॉन प्रॉब्लम से बचाता है। सेब का छिलका दांतों में कैचरी को होने से रोकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी में इसका सेवन करने से खून की कमी पूरी होती है। कैल्शियम, इंजाइम, एंटी ऑक्सीडेंट और प्लेविनाइड के गुणों से भरपूर सेब का छिलका मोटापा को दूर करने के साथ-साथ लीवर, ब्रेस्ट और कालोन कैंसर से बचाता है।

विकास और मजबूत कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री चौहान का राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन ने किया अभिनंदन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आम जनता के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए सभी नागरिकों विशेष रूप से माताओं-बहनों के सम्मान पर अंकुश नहीं आने दी जाएगी। विकास और मजबूत कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। राज्वा शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिले, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बना लो, बात पढ़ाई-लिखाई की हो या रोजगार, खाद्यान्न वितरण या उपचार की, कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कहीं किसी भेदभाव को स्थान नहीं दिया जाएगा। सभी वर्गों के मध्य सद्भाव आवश्यक है। यही भाईचारा हमारी ताकत भी है। भारत भूमि में सर्वदल इष्ट भावना को बल भी दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा वार्षिक नेता स्व. आरिफ बेग की 86वीं जयंती पर खंबूद भवन, भोपाल में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का प्रदेश के व्यवसाय, तीव्र विकास और सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू करने के लिए अभिनंदन भी किया।



मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. आरिफ बेग का स्मरण करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किये। उन्होंने

कहा कि स्व. आरिफ बेग चल्ती-पिठती पारखाला थे। उन्होंने स्वयं स्व. श्री बेग से भाषण कला सीखी।

स्व. बेग एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे। वे दिलों पर राज करते थे। विधायक, सांसद और केन्द्रीय मंत्री

के रूप में उन्होंने अमूल्य सेवाएँ दीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आपतकाल की अवधि में स्व. श्री बेग के साथ कारावास में बिताए वक को भी याद किया, जब अनेक बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कारावास में स्व. श्री बेग सभी का हीरोला बढाते थे। उनका संदेश यही होता था कि जुल्म के आगे झुकना नहीं है। उनकी शक्तिशाली व्यक्तित्व, ठाकरे जी, राजगवाता जी और अटल जी के समकक्ष थी। कौपी एकता के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया। वे काफी विम्वय थे और खेलों में भी उनकी रुचि थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व. श्री आरिफ बेग के सेवा कार्यों को उनके सुपुत्र श्री नुरुल हसन बेग द्वारा आगे बढाने की पहल प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा मुस्लिम समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने के प्रयास को भी सराहना की। इस अवसर पर श्रीमती शाहना बेग, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री रफत वारसी, फाउंडेशन के पदाधिकारी और बढी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न प्रकरणों और खबर्मुट्टी फिल्टर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्री हरदीप सिंह डंग से चाय पर की चर्चा



भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवृत्त पर परिवर्णन और नवीन एन नकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री

हरदीप सिंह डंग ने चाय पर चर्चा की और विभागीय योजनाओं से उत्पन्न के प्रावधानों का लाभ दितवाया जा रहे है। यह

क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। व्यापक रूप से योजना लागू होने पर इसमें किसान को जहाँ सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली मिलेगी, वहीं विद्युत के स्टोरेज की व्यवस्था होने से अतिरिक्त उत्पादन की राशि किसान को खाते में जाएगी। पारेण की हानि को रोकने में सफलता मिलेगी। इससे जहाँ सरकार का भी लाभ होगा वहीं किसान को भी दिन के समय में 10 घंटे बढाई की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। श्री डंग ने बताया कि शासकीय भवनों में भी सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदाय की योजना सफल हो रही है। शासकीय कार्यालयों की छत पर सौर की स्थापना कर रूप टॉप योजना को लोकप्रिय बनाया गया है। नवरक्षण्य ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में नई सौर नती के क्रियान्वयन के साथ ही विंड एनर्जी उत्पादन और इसके उपयोग को बढाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विशेष निधि मद में 9 नगरीय निकायों को 27 करोड़ 53 लाख आवंटित

भोपाल। विशेष निधि के अंतर्गत 9 नगरीय निकायों को विभिन्न कार्यों के लिये 27 करोड़ 53 लाख 32 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं। स्विकृत राशि से सी.सी. रोड, आरसीसी नाली, अपोसंचना विकास, पैवजल पाप-लाइन, शमशाण रोड, शांतिपुत्र कॉम्प्लेक्स, हेण्ड-पम्प खनन, सेप्टेज प्रबंधन, आधुनिक विम का निर्माण सहित अनेक कार्य करवाये जायेंगे। जिला सोीर के नगरीय निकाय शाहजंज को 2 करोड़ 18 लाख 6 हजार, बुधनी को 4 करोड़ 26 लाख 92 हजार, सरखण्ज को 5 करोड़ 87 लाख 33 हजार, रहटी को 2 करोड़ 62 लाख 24 हजार, सागर जिले के नगरीय निकाय खुर्दो को 7 करोड़ 33 लाख, बांदी को एक करोड़, माधोनी को 3 करोड़ 31 लाख 77 हजार और दतिया जिले के नगरीय निकाय भाण्डर को 3 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

विकसा शिक्षा मंत्री सांय ने किया दतिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य



भोपाल। विकसा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सांय ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ मेडिकल कॉलेज और एम्स, भोपाल अपना नॉलेज शेयर करे। इसके बाद प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को भी इसमें शामिल किया जायगा। इसी प्रकार विकसा छात्रों की सुखा की दृष्टि से उनके लिये बीमा पॉलिसी शुरू की गई है, जिसमें 10 लाख रुपये का मेडिकल बीमा कर रहे। श्री सांय ने सोमवार को दतिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और छात्र-छात्राओं से चर्चा कर उनसे रुच-रुहू। साथ ही कॉलेज में संचालित गतिविधियों को समीक्षा भी की। श्री सांय ने इस दौरान एनटीपी, डिसेमेशन हॉल, माइक्रोबायोलॉजी लेब, म्यूजियम और स्टूडेंट्स लैब्ररी हॉल का भी निरीक्षण किया। मंत्री श्री सांय को छात्र डॉ. लखान ने बताया कि उनका विकसा करने का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है। श्री

सांय ने विकसा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं से चर्चा करते हुए कहा कि भवना के बाद विकसा के ही स्थान है। एक विकसा इंशर के रूप में मरीज को जीवनदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी यह संकल्प लें कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद पूरी ईमानदारी और शिष्टा के साथ मरीज की सेवा कर उन्हें जीवनदान दे। श्री सांय ने कहा कि दतिया विकसा महाविद्यालय से पासआउट विद्यार्थी ततला से मरीजों की सेवा कर कॉलेज का नाम रोशन करे। मंत्री श्री सांय ने बनीका बैकड में निवेश दिये कि कॉलेज में उपलब्ध मेडिकल पर आधारक रूप से संभरण मेडिकल पर आधारक रूप से मरीज का नाम, बैच नम्बर, एक्समपरी डेट, संचालित करने का नाम और दूरभाष नम्बर लिखा हो।

बेहतर प्रदर्शन कर महाविद्यालयों को बनाएं सर्वोत्कृष्ट- मंत्री डॉ. यादव

भोपाल। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में नैक प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं उत्तम ग्रेड प्राप्त करने की संभावनाएँ हैं। विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों में प्रोत्साहन और क्षमता की कमी नहीं है। यदि महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हुए नैक में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता हैं तो महाविद्यालयों को उत्तम ग्रेड प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने यह विचार नोटोना प्रकाशन अकादमी भोपाल में आयोजित महाविद्यालयों के

मुल्यांकन संबंधी प्रावधानों को एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किए। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नैक एवं एनआईआरएफ में उत्तम स्थान प्राप्त करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें, साथ ही प्रदेश की उच्च शिक्षा को नई ऊँचाईयों तक पहुँचायें। उन्होंने कहा कि राज्य शासन महाविद्यालयों को समस्त संपातित संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। महाविद्यालयों को भी इस प्रक्रिया में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसी भी प्रदेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग आहना का काम करता है।

नए पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मिलेगा भरपूर प्रोत्साहन-मंत्री डॉ.यादव

भोपाल। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विविध विद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा नए, पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सरकार का भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। सभी एन ईकेडिया के पाठ्यक्रम संचालित करने सहित विविध नवाचारों के लिए पूरी मदर की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव स्वगतलक्ष विद्यालय भोपाल में लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले मल्टीपुंज भवन के भूमिपूजन शिवालय एवं अन्य निर्माण कार्यों के अंजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि चरकतलक्ष विद्यालय में निर्मित होने वाले मल्टीपुंज भवन का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम से किया जायगा। उन्होंने कहा कि स्वामी



विवेकानंद के मार्ग को आससात करने लागू करके शिक्षा जगत को बडी सीगत कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि

शोध आधारित नीति है। इसे ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। विविध विद्यालय एवं महाविद्यालय को चरकतलक्ष विद्यालय के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। चरकतलक्ष विद्यालय में मल्टीपुंज भवन के अंजन जाने से विविध विद्यालय को समर्थन दूर होगी और विद्यार्थियों की सुविधाएँ बढेंगी। कार्यक्रम में विविध विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.जे. राव ने कहा कि भाव्य संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मल्टीपुंज भवन के अंतर्गत विविध विद्यालय को 20 करोड़ रुपये की पण्य का अनुदान दिया गया है, जिससे विविध विद्यालय में मल्टीपुंज भवन का निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों का उद्यमण होगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने जनजातीय छात्रावास शीघ्र प्रारंभ करने के लिए निर्देश

बोर्ड तथा महाविद्यालयीन परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला, छात्रावासों में कोविड-19 से बचाव की सावधानियों का पालन होगा आवश्यक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय छात्रावास शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड तथा महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावासों का संचालन आरंभ किया जा रहा है। छात्रावासों में कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन अनिवार्य होगा। इस निर्णय से विद्यालय स्तर के सामान्य छात्रावास और आवासीय विद्यालयों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लगभग 34 हजार तथा महाविद्यालयीन स्तर के 8 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रवेश में



1195 सैनियर छात्रावास, 152 महाविद्यालयीन छात्रावास, 126 विशिष्ट संस्थाएँ जैसे आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तथा गुरुकुलम विद्यालय जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छात्रावासों में साफ-सफाई, स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छात्रावासों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को ही रहने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा 9वीं तथा 11वीं के विद्यार्थियों के लिये नहीं होगी। आग्रय, जूनियर छात्रावासों को अभी नहीं खोला जाएगा। छात्रावासों में रहने के लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी। प्रत्येक छात्रावास में पृथक से एक कोरिडोर रूम बनाया जाएगा। छात्रावासों में कोविड-19 से बचाव के लिए लागू गाईड लाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए छात्रावास अधीक्षकों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक छात्रावास निकटतम स्वास्थ्य केंद्र के साथ संबद्ध किया जायगा। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक का मोबाइल नम्बर छात्रावास के सूचना पटल पर लिखा जाएगा। छात्रावासों में निरामित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होगी। सभी संपागीय, जिला तथा विकासखंड स्तर के अधिकारियों और प्राचार्यों को छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिये सात विकेट, इंग्लैंड दूसरी पारी 53/ 3

चेन्नई। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत की ओर बढ़ रही है। मैच के तीसरे दिन जीत के लिए मिले 482 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम इंग्लैंड ने दूसरी पारी में अपने तीन विकेट केवल 53 रनों पर ही खो दिये। भारतीय टीम को अब यह मैच जीतने के लिए सात विकेट चाहिये जबकि दो दिनों का खेल शेष है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय कप्तान जोरूट 2 और डैनियल लॉरिस 19 रन बनाकर खेल रहे थे। मेहमान टीम को अभी भी हार से बचने के लिए 429 रन बनाने हैं। तीसरे दिन के खेल का आकर्षण आर अश्विन का शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे, जबकि दूसरी पारी में भी एक विकेट लिया



है। इसके अलावा 106 रन की शानदार शतकीय पारी खेली कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड टीम का पहला विकेट अक्षर पटेल ने लिया। उन्होंने डोमिनिक सखिले को 3 रनों के पर आउट किया। दूसरे सलामी बल्लेबाज श्री वनस को 25 रनों के स्कोर पर अश्विन ने कोहली के हाथों कैच आउट कराया। वहीं तीसरा विकेट जैक लीच के रूप में गिरा। लीच अपना खाता भी नहीं खोल पाये। यह विकेट अक्षर ने लिया। इससे पहले अश्विन के शतक और कप्तान विराट कोहली के 62 रनों की अर्धशतकीय पारी को मदद से भारत ने अपनी दूसरी पारी में 286 रन बना कर इंग्लैंड को 482 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने पहली पारी में 329 रनों का स्कोर बनाया

था जबकि इंग्लैंड को टीम पहली पारी में 134 रन पर ही आउट कर दिया। इस प्रकार भारतीय टीम को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। भारत ने अश्विन के टेस्ट करियर के पांचवें शतक के बल पर इंग्लैंड के सामने कठिन लक्ष्य रखा है। यह तीसरा मौका है जब अश्विन ने एक ही टेस्ट में शतक लगाने और पांच विकेट लेने का कारनामा किया है। भारत के लिए दूसरी पारी में अश्विन ने 148 रनों पर 14 चौकों और एक छके को मदद से 106 रनों की सर्वाधिक पारी खेली। उनके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 62, रोहित शर्मा ने 26, मोहम्मद सिराज ने 16, शुभमन गिल ने 14 और अजिंक्य रहाणे ने 10 रन बनाए। बाकी बल्लेबाज दोहरे अंकों भी नहीं पहुंच पाए।

इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों को गंभीर का करार जवाब

नई दिल्ली। चेन्नई पिच की आलोचना कर रहे इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों को भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया है। गंभीर ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन कमेंट्री के दौरान कहा कि चेन्नई की पिच चाहे कैसी भी हो वह विकेट लेने के लिए टैलेंट की जरूरत होगी। गंभीर ने कहा कि चेन्नई की इसी पिच पर भारतीय स्पिनर और इंग्लैंड के स्पिनरों में काफी अंतर दिखा। यह बजह है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज चेन्नई की पिच पर पहली पारी में महज 134 रन बना सके और भारतीय बल्लेबाजों ने पहली



पारी में 329 और दूसरी पारी में 286 रन बनाए। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन आर अश्विन ने शतक लगाकर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों को चलाती बंद कर दी। अश्विन ने 106 रन बनाकर साबित कर दिया कि आर अश्विन के साथ ही चेन्नई की पिच पर भी रन बनाने जा सकते हैं। अश्विन ने कहा कि मुश्किल पिच पर 14 चौके और 1 छका लगाए। अश्विन का स्ट्राइक रेट भी 70 से ज्यादा रहा। यही नहीं अश्विन ने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के साथ भी 49 रनों को साझेदारी कर डाली।

आईपीएल 2021 में हरभजन सिंह पर मेहरबान हो सकती हैं तीन फ्रेंचाइजी



नई दिल्ली। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह आईपीएल 2021 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 18 फरवरी को आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी होगी। खबरों के मुताबिक, इस नीलामी में हरभजन सिंह पर ये तीन फ्रेंचाइजी मेहरबान हो सकती हैं। दरअसल, इस साल को नीलामी में हरभजन

सिंह का खुद का बेस प्राइस दो करोड़ रुपये रखा है। पांच बार की आईपीएल चैंपियंस मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस नीलामी में हरभजन सिंह को अपने साथ जोड़ सकती हैं। इस टीम से भज्जी को पुराना नाता है। हरभजन सिंह 2008 से लेकर 2017 तक आईपीएल में मुंबई का हिस्सा रहे हैं। दूसरी फ्रेंचाइजी, जो हरभजन को तिजोरी भर सकती है, वहां

किंग्स इलेवन पंजाब है। पंजाब में अनुभवी स्पिन गेंदबाज को करार है। पंजाब में वरुण चक्रवर्ती (एक सीजन) और मुरगन अश्विन (31 मैच) दो स्पिन गेंदबाज हैं, जो पिछले सीजन में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाये थे। ऐसे में हरभजन सिंह के आने से स्पिन विभाग में मजबूती मिलेगी। बता दें कि हरभजन पंजाब के लिए पहले क्रिकेट खेलें हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की अनुभवी स्पिन गेंदबाज की जरूरत है। हालांकि, टीम में चाइनामैन कुलदीप यादव के अलावा वरुण चक्रवर्ती हैं। यादव पिछले सीजन में प्लॉफ रहे थे जबकि चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन किया था। हरभजन पर दांव खेलकर नाइट राइडर्स अपने स्पिन विभाग को और मजबूत करना चाहेंगी। बता दें कि पिछले सीजन में भज्जी चेन्नई सुपरकिंग्स का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने किसी बजह से खेलते से इनकार कर दिया था। वहां, चेन्नई ने इस साल की नीलामी से पहले भज्जी सहित छह खिलाड़ियों को रिहा कर दिया था। बता दें कि आईपीएल 2021 की नीलामी में 292 खिलाड़ियों की बोली लगेगी।


नडाल और बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचें

मेलबोर्न। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गये हैं।

नडाल और बार्टी ने पुरुष और महिला वर्ग में अपने-अपने मुकामले जीतकर वॉर्न के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। तिर्काई 21वें ग्रैंड स्लैम खिलाड़ के लिए उर्रे नडाल ने इटली के फाबियो फोगिनो को दो सेट 16 मिनट में 6-3, 6-4, 6-2 से हराकर 13वीं बार वहां फाइनल में उतर बनवाया। यह उनका 43वां ग्रैंड स्लैम फाइनल है। अब नडाल का फाइनल में पांचवीं बार उतरना प्राप्त वृत्तान से स्लोफानिया सिबिगीया से मुकामला होगा जिन्हें नर्वीय वरवाता प्राइ इटली के मातियो बेरेट्टिनी के मैच से हटने के कारण आसानी से अंतिम आठ में प्रवेश मिल गया। बेरेट्टिनी सेट को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच के बीच से ही हट गये। वहीं महिलाओं के वर्ग में शीर्ष वरिष्ठता प्राप्त बार्टी ने अमेरिका की शेन्नी रोजर को एक सेट 11 मिनट में 6-3, 6-4 से हराया। अब रोमानियाई वर्ग में उतर बनाने के लिए बार्टी का मुकामला चैक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा।

अश्विन ने हरभजन को पीछे छोड़ने के बाद माफी मांगी

चेन्नई। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन देश में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर पहुंच गये हैं। इससे पहले दूसरे नंबर पर दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह थे पर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए भज्जी को पीछे छोड़ दिया। अश्विन ने डेन स्टोक्स को आउट करने के साथ ही हरभजन को पीछे छोड़ जिनके नाम 28.76 के औसत से 265 विकेट हैं। परन्तु मैदान पर अश्विन ने 266 विकेट लिए हैं। अश्विन ने कहा, 'जब मैंने 2001 शुरू किया तो हरभजन को खेलते देखा था तब मैंने यह सोचा था नहीं था कि देश के लिए ऑफ स्पिनर के तौर पर खेलेगा। मैं उस समय अपने राज्य के लिए खेल रहा था और बल्लेबाजी में अपना करियर बनाना चाहता था।' 76 टेस्ट में 25.26 के शानदार औसत से कुल 391 विकेट लेने वाले अश्विन ने कहा कि



कि शुरुआती दौर में टीम के उनके साथी खिलाड़ी हरभजन की तरह गेंदबाजी करते पर उनका मजाक उड़ने लगे। उन्होंने कहा, 'उस उम्र के मेरे साथी खिलाड़ी मेरा मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि मैं हरभजन भाई की तरह गेंदबाजी करता था। वैसे स्थिति से आने के बाद उनके रिफार्ड को तोड़ने के लिए आपकी अधिश्चसनीय रूप से विशेष होना चाहिए। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, अब जब मुझे इन्हें बारे में पता है, तो मुझे खुशी हो रही है। माफ करें, भज्जू भाई!'

पेट्रोल की कीमत 26 पैसे और डीजल की 31 पैसे तक बढ़ी



मुंबई। परन्तु याजार में अर्थस मंत्रालय की कंपनियों ने सोमवार को लगातार 7वें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 29 पैसे में बढ़ोतरी हुई है। कस्त भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 29 और 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। देश भर में सोमवार को पेट्रोल की दाम 24 से 26 पैसे तक और डीजल 28 पैसे से लेकर 31 पैसे तक बढ़े हैं। इसी तरह मुंबई में भी पेट्रोल और

सेंसेक्स 500 अंक से अधिक निपटी 15,299 के पार

मुंबई। बीधक बाजारों की तेजी के बीच बैंकिंग व वित्तों शेरों में मजबूती आने से सोमवार को शुरुआती कारोबार में परन्तु शेयर बाजार नारिकांड उच्च स्तर पर पहुंच गए। बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक संसेक्स में 515.40 अंक की तेजी रही और यह 52,059.70 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह एनएसई का निपटी भी 135.90 अंक को बढ़ा के साथ 15,299.20 अंक पर चल रहा था। संसेक्स को कंपनियों में इंडस्ट्री बैक में सर्वाधिक करीब दो प्रतिशत की तेजी रही। इसके बाद फिक्स बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी तेजी में चल रहे थे। इनके विपरीत ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, सन फार्मा और टीसीएस के शेयर गिरावट में चल रहे थे। इससे पहले सुक्रुबर को संसेक्स 12.78 अंक को बढ़ा के साथ 51,544.30 अंक पर और निपटी 10 अंक फिसलकर 15,163.30 अंक पर बढ़ हुआ था।

विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी से जनवरी में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.03 फीसदी हुई

नई दिल्ली। एन.साल की जनवरी 2021 में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी के बने भी थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में बढ़कर 2.03 फीसदी हो गई। इसका मुख्य कारण विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी आना है। तबले आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई। हालांकि विनिर्मित मूल्य वस्तुओं और ईंधन एवं विजली वर्ग का मूल्य सूचकांक बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ी। विशेषतः अनाज कुछ महत्त्व के कोमत वृद्धि की दर के रफार एकटने का अनुमान जाहिर कर रहे हैं। थोक (इन्फ्लेक्शन) इससे पहले दिसम्बर 2020 में 1.22 प्रतिशत और जनवरी 2020 में 3.52 प्रतिशत था। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों को थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में मूल्य से 2.8 प्रतिशत तेजी बढ़े पर अनाज की थोक मुद्रास्फीति इस दौरान 22.04 प्रतिशत रही। ईंधन एवं विजली की



मूल्य पर आधारित महोदय (र) जनवरी 2021 में 27 महिने के उच्च स्तर 5.1 प्रतिशत पर रही। इसका प्रथम अंशकारी अर्थीति नगर ने कहा कि मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के अंतर को प्राथमिक खाद्य सामग्रियों के दामों में तेज गिरावट ने संतुलित कर दिया। इसका कारण है कि विजली की बढ़ती मांग तथा अधिष्ठीक होती कोमत के चलते अरिष्-वृत्त मिश्री में मूल्य मुद्रास्फीति साथ से साथ तेज प्रतिशत तक पहुंच सकी है नगर ने कहा, 'अनाज कुछ महिने में मूल्य थोक मुद्रास्फीति में तेज उछाल आ सकता है। एम अउर तबल वर्ष 2021-22 में औसत थोक मुद्रास्फीति पांच से साढ़े पांच प्रतिशत रहने की उम्मीद कर रहे हैं, कारते कि उपलब्ध टांके कोराना बावस के नये स्वरूपों के फिक्कल निष्पावों साबित न हो जायें और इससे विजली की कोमते, उपभोगों का प्रयोग व कारोवारी लागू करकोन न हो अणे।' भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीबी) ने पांच फरवरी को जारी की गये वार्षिक निष्पावों में थोक की कोलारती नीति बैक में अपरिष्ठीक रहा। रिजर्व बैंक ने थोक कोमते हुए कहा था कि निम्न-प्रतिशत में मुद्रास्फीति का परीवृत्त अकुल हुआ है।

मुद्रास्फीति मूल्य से 4.78 प्रतिशत तेजी रही जबकि दिसम्बर में उस वर्ग में मुद्रास्फीति मूल्य से 8.72 प्रतिशत तेजी थी। नर-खाद्य श्रेणी में मुद्रास्फीति

इस दौरान 4.16 प्रतिशत रही। मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और मूल्य प्रखान के तल अने वाली वस्तुओं को छोड़ कर विनिर्मित वस्तुओं के थोक



साझा प्रयासों से लायेंगे ज्वालियर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएँ : श्रीमंत सिधिया

राज्यसभा सांसद सिधिया ने ऊर्जा मंत्री श्री तोमर की मौजूदगी में की चिकित्सकों से परिचर्चा

ज्वालियर। समाज में शिक्षक व चिकित्सकों को ओढ़ा बहुत ज़रूरी है। शिक्षक ज्ञानदाता और चिकित्सक ज्ञानदाता (ज्ञान बचाने वाले) होते हैं। चिकित्सकगण अपनी अस्सी फूटन को पाद रखकर आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराते हैं। इस अर्थक प्रथम चिकित्सा सेवाओं को मुहैया कराने श्रीमंत ज्योतिराज सिधिया ने व्यक्त किया। श्री सिधिया ने ज्वालियर की चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य को लेकर सोमवार को सरकारी एवं निजी चिकित्सकों से परिचर्चा की। उन्होंने कहा सभी के साझा प्रयासों से ज्वालियर में विश्व स्तर की चिकित्सा सेवाएँ लायीं जा सकेंगी। इसमें चिकित्सकों को भूमिका सम्पूर्ण होगी। इस परिचर्चा के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। ज्ञान गणराज मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक व चिकित्सकों के साथ हुए संवाद के दौरान राज्यसभा सांसद श्री सिधिया ने कहा कि ज्वालियर में चिकित्सा सेवाओं को विस्तार देने की जरूरत है। यह हम सबके सम्मिलित प्रयासों से संभव होगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सक और जनप्रतिनिधि एक ही सिक्के के दो पहलू को तह होते हैं।



दोनों का लक्ष्य भी समान है और यह है जनसेवा। इस श्रेय का ध्यान रखकर अगर हम काम करेंगे, सभी सही मायने में जनता को इच्छित दूर कर पायेंगे। उन्होंने चिकित्सकों का आभार करते हुए कहा कि वे समाज भाव से जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराएँ उनकी समझौते का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। श्री सिधिया ने कोरोना काल में बेहतर सेवाएँ मुहैया करने के लिये सभी चिकित्सकों के प्रति साक्षुबाद व्यक्त किया। राज्यसभा सांसद श्री सिधिया ने यह भी कहा कि कोई भी राज्य या देश जनता की रखत होता है, जितना सख्त

व स्वस्थ उसका मानव संसाधन होता है। इसलिए जो देश अपने मानव संसाधन को सतक व धनवाहन बना पाए वे जगत् का पथ पर आगे बढ़ पाएँगे। उन्होंने कहा अच्छी शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के ज़रिए हम सख्त मानव संसाधन तैयार कर सकते हैं। शिक्षित और

स्वस्थ जनता विकास को हर बाधा को तोड़ सकती है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ज्वालियर की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिये राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिराज सिधिया आगे आए। श्री तोमर ने कहा कि चिकित्सकों को दूसरा भावना कला जाता है। चिकित्सकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम ज्वालियर की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनायेंगे। राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिराज सिधिया ने परिचर्चा के दौरान सुझाव दिया कि विशेष चिकित्सकों को एक कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों का हम सम्मान करायेंगे। उन्होंने कहा सिधिया रिवास्तकात के दौरान शरीर शेष के साप्साध ग्रामाण शेष में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया। इस शेष भाव के साथ ज्वालियर लिये की स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिवने के प्रयास करे। उन्होंने गते के मॉडर के समीप रिवास्तकात अस्पताल की जमीन पर अत्यधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में रुक अस्पताल की स्थापना की पुरत को आगे बढ़ाने की बात भी इस अवसर पर कही। परिचर्चा के आध में

गजराज मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. एस एन अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। इसके बाद चिकित्सकों ने अपने सुझाव व समस्याएँ सांसद रखीं। डॉ. प्रद्युम्न भस्ति ने डिजिटल मेडिसिन को बढ़ावा देने एवं हेल्थ इक्विटी का दारा बढ़ाने का सुझाव दिया। डॉ. एस. भावा, डॉ. एस.ए. अन्वला व डॉ. सुभाष खेंगे ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से संबंधित निराम हेम की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. राहुल सभा ने डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मजबूती और निराम हेम को लघु उद्योग का दर्जा दिलाने का सुझाव दिया। डॉ. कुमुदलाल सिधिया ने निजी डॉक्टरों को अंगुष्ठी देते में विशेष चिकित्सा का ध्यान रखने और अंशतःपहलू हास बनाने में सहयोग देने का सुझाव दिया। डॉ. सुनील अन्वला ने परंपरेरी अस्पतालों की सेवाओं को बेहतर बनाने का सुझाव दिया, निराम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में केवल फेरल प्रायोज ही करें। उन्होंने चिकित्सकों को विदेश अग्रवत् की सुविधा दिवने में विशेष चिकित्सा का ध्यान रखने और अंशतःपहलू हास बनाने में सहयोग देने का सुझाव दिया। डॉ. सैलेंद्र भट्टाचार्य ने ज्योतिराज मेडिसिन (बुलुगी से संबंधित इलाज) सेंटर खोलने का सुझाव दिया।

भाविप शाखा सम्पण के गुलाब अद्यक्ष प्रिरीश उपाद्यक्ष प्रदीप सचित व नरेन्द्र कोषाद्यक्ष बने

ज्वालियर। भारत विकास परिषद द्वारा समरण का पर्यन्त उद्युप परिषद सिम्ता कांरगम के सभा हेतव दिवस में उद्युप पर्यवेक डॉ ज्योति सार्म के उद्युप अग्रवत् में सम्पन्न हुआ। मीटिंग में संस्थाक व प्रातरीय संमरण मंत्री संवाध धवन व संस्थाक अग्र अन्वला, प्रिरीश अन्वला, उद्युप प्रजावति प्रदीप लखण, डॉ संकरा खरे, महेश अन्वला, महेश भीमान, नरेन्द्र सिन्हा, आनंद गौड़, उद्युप अन्वला, प्रदीप प्रदीप, प्रदीप प्रदीप लखण एवम् माधुसूद के रूप में वंदा प्रदीप प्रदीप धवन, प्रदीप भीमान, प्रदीप संचयनी शरित लखण आदि उन्वित्वा ही। इस मीटिंग में अग्रत कांरकात के लिए कांरकाती का पटना किता गया संसंमिली से ज्वालियर प्रजावति को अग्रवत्, प्रिरीश अन्वला को उपाद्यक्ष, प्रदीप लखण को संचयन व नरेन्द्र सिन्हा को अग्रवत् बनाया गया। महिला सभापति में श्रीमती विन्ती सचयनी व प्रदीप भीमान को संस्थाक नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट के बाद की चर्चा की अग्रवत् उद्युप प्रजावति का साफल्य के मंदावत प्रिरीश अन्वला की डेरा किता गया। कांरगम में बचनों ने बहुत ही मनमोक खंस व गने व स्वी अदि की प्रस्तुति दी। सभी को पुरस्कार भी दिए गए। वहां अग्रवत् माधुसूद को नोन व तुलसी के फौषी का विवरण भी प्रदीप लखण के द्वारा किता गया। अग्रवत् प्रदीप, अन्वला अन्वला, संवाध धवन ने नदी कांरकाती को बहुत बहुत धंधा दी है व आशा की है कि नदी कांरकाती शाखा सम्पण को और ऊंचाई तक ले जाएं। अपने सभी के उन्नत भविष्य की कामना की है। उक्त जाकरती नदी संचयन व महिला प्रभादी प्रदीप लखण द्वारा दी गयी है।

विडीयाघर हुआ गुलजार, पहले ही दिन आए बम्पर सैलानी



ज्वालियर। कोविड-19 की महामारी के चलते मुखा की दृष्टि से लगभग 11 माह पूर्व बंद हुआ विडीयाघर आज से आम सैलानियों के लिए खोल दिया गया। कोविड-19 की शरत का पालन करते हुए सैलानियों के लिए प्रारंभ किए गए विडीयाघर में मास्क एवं सैनेटाइजर के बाद ही सैलानियों को प्रवेश दिया गया। प्रथम दिवस ही 1500 से अधिक सैलानियों ने वन्य प्राणियों के दीदार किए और नगर निगम 40 हजार रुपये का वन्य प्राणियों के विडीयाघर प्रभादी ड्रा उन्वद यावत् पूर्व श्री गौरव परिहर ने जनकरती देते हुए बताया कि विडीयाघर को प्रारंभ करने को लेकर व अग्रवत् से अंगुष्ठी प्राप्त होने के बाद ही विडीयाघर आम दर्शकों के लिए खोलता गया है। इसके

किराए का मकान देखने आई महिला से दुष्कर्म

ज्वालियर। उन्मगर सुतर धवन क्षेत्र में अपनी रिश्तदार के साथ किराता का मकान देखने आई एक महिला के साथ रिश्तदार मकान मालिक ने अश्लीली पडी के सामने ही दुष्कर्म कर डरवा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। जानकरती के अनुसर हेतव के निरीक्षण धवन क्षेत्र के गांव निरामा 40 बचन को एक महिला की मुरा पास मंडी निरामा अनीता रिश्ते में नन्द लाली है। अनीता कुशु दिवने से महिला से कह रही थी ती है ज्वालियर में आकर रहने ली और वह अपने मकान में बचन भी किराए से दे ली। महिला अनीता को बचनों में आ गई और वहीं तेज बहा प्रसार में करवा देखने आई थी वती अनीता ने पीलीस से बचने के कर और सुझाव पर छोड़ देने की बात कही। इसमें बाद महिला का प्रति आवा और धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीलीस की किरातदार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

विय सैलानियों को मास्क एवं सैनेटाइजर अनिवार्य किता गया है जिसमें प्रवेश दार पर ही सभी दर्शकों के हाथ सैनेटाइजर करवा जा रहे हैं। श्री गौरव परिहर ने बताया कि 11 माह के दौरान वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास विकसित किता गया है तथा एनवायरोमेंट एलिमेंट का कार्य किता गया है। इसके परिणाम स्वस्थ नई संघ धवन के साथ विडीयाघर को सुधारें किता गया है वही नगरिकों को वन्य प्राणी अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्राणी उद्यान में बाट टाइगर तथा येलो उद्यार शिलालेक कुल 6 उद्यार तथा बचन लॉयन है। दोबारा खुलने के बाद आज शिवाहीवनों में पहले वारा एलेविनी ब्लैकबक के दीदार किए।

वुवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

ज्वालियर। उन्मगर ज्वालियर के कशातीनेरा को मरने वाले एक वुवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। जानकरती के अनुसर उन्मगर ज्वालियर के कशातीनेरा को मरने के हेतव वाले चसन सेन 20 साल बीती रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का समाचार मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई और मुक्क के रूप को पीएम के लिए पेज मारं कराम कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

जेसीआई ज्वालियर ने मनाया 'वैलेन्टाइन डे'

ज्वालियर। जेसीआई ज्वालियर द्वारा दिवस दिवस दी एनवायरो रिस्ते में वार के दिन वैलेन्टाइन डे को धन्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों व उनके परिवार के लिए विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किता गया। उक्त कार्यक्रम में कई कपल गेम्स, कपल डांस, फनी एक्ट, सको द्रु, सपराइज गेम आदि का आयोजन किता गया। साथ ही बचनों के लिए अलग से किट्टु जौन बनाया गया जहाँ नरहं मूर्तों ने कई गेम्स खेलकर आकर्षक पुरस्कार प्राप्त किने। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा नृत्य नाटिका एवम् कई कपल डांस प्रस्तुत किने गए। जिन्को प्रस्तुती ने माहौल को और रंगीन बना दिया। इस अवसर पर सभी डांस प्रतिभागियों, विभिन्न गेम्स के विजेताओं के साथ साथ वैलेन्टाइन वीक के सर्ता दिवस के फुटेड प्रतियोगिता के विजेताओं तथा

सपराइज गेम्स के विजेताओं को आश्या अश्या जेसी रिेश अन्वला व इतर आकर्षक पुरस्कार दिए गए। जेसी वैभव-कोरिंत सिन्हा, जेसी अभिनव-एमलीन सिन्हा, जेसी संदीप-सुनु जैन व



जो लकी कपल है जिन्हें वैलेन्टाइन वीक के प्रत्येक दिवस के अतिरिक्त सर्ता दिवस के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर संस्था में शामिल नवीन सदस्यों को शपथ विधि अधिकारी माण्डल अश्या जेसी लक्ष्मण द्वारा शपथ दिलाई गई एवम् नवीन सदस्यों ने अपना परिचय दिया। साथ ही आश्या द्वारा इस अवसर पर साधारण सभा की भी आयोजन किता गया जिसके अंतगत सदस्यों के सुझावों एवम् उनकी जिज्ञासयों का समाधान अश्या अश्या जेसी रिेश अन्वला एवम् निवर्तमान अश्या जेसी अजीत गुप्ता द्वारा किता गया।

स्कापिडों की टक्कर से बची की मौत

ज्वालियर। जिले के डबरा धाना क्षेत्र में भरियरगर रोक पर नोन नदी के पुल के पास रविचार को शाम करती व पांच बजे एकरे स्कापिडों ने बाइक में सामने से टक्कर मारी। जानकारती के अनुसार ज्वालियर निवासी शाहिद रविचार को बाइक से नलकर जा रहा था, तभी नोन नदी के पुल के पास भरियरगर की ओर से आ रही स्कापिडों क्रमशः एक एमपी 09 वती के 6885 के चालक को बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर बैठे चार सलाई की बचकी की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने आरोपी वाहन चालक की तलाश प्रारंभ कर दी है।

जेएच ट्रामा सेंटर के विस्तार के लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी : सिधिया

ज्वालियर। जेएच का ट्रामा सेंटर ज्वालियर-चंवल संभाग ही नहीं राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश के समीपवर्ती जिलों की आशा का केन्द्र है। इसलिये यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ उच्च कोटि की होनी चाहिये। ट्रामा सेंटर की सुविधाओं में विस्तार के लिये धनराशि की कमी नहीं आने दी जायेगी। यह बात पूर्व केन्द्रिय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिराज सिधिया ने ट्रामा सेंटर के निरीक्षण के दौरान कही। श्रीमंत सिधिया सोमवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ जेएच परिवार में स्थित ट्रामा सेंटर का जायजा लेने पहुंचे थे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमंत सिधिया ने जेएच अधीकषक डॉ. थाकडू से कहा कि ट्रामा सेंटर का विस्तार



कराएँ, जिससे ट्रामा सेंटर में आने वाले सभी मरीजों को अत्यधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ मिल सकें। उन्होंने 20 बिलियर

सिधिया ने ट्रामा सेंटर की सारफ-सफाई व्यवस्था एवं सेंटर के सुधार कार्यों की सलहना की। उन्होंने इसके लिये ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं अस्पताल प्रबंधन को साक्षुबाद दिया। ट्रामा सेंटर के अलोकना के दौरान राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिराज सिधिया ने जनरल वाइ व प्राथमिक उपचार कक्ष का जायजा लिया। साथ ही ट्रामा सेंटर के ऑपरेशन थियटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर पूर्व विभागाध्यक्ष श्री सुजालाल गोयल व गजराज मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. एस एन अग्रवाल सचित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं जेएच समूह के अधीक्षक डॉ. आर एस धासंड व ट्रामा सेंटर के चिकित्सकगण मौजूद थे।

P NEWS प्रतिभा हम निखारेंगे

अगर आपके अंदर है कोई ज्वावा तो उमर कर आइये आगे आपकी लिखी हुई कहननी, लेख, कविताओं को हम देंगे जगह आपके अंदर की प्रतिभा को हम उमारेंगे। आप तो दे किस बात की हमें मेरे अपनी कविता, लेख, कहननी हमें क्लारसप या मेल फोन करके दे दें

हमारा उद्देश्य भारत में सभी प्रतिभाओं को बाहर निकलना।

Whatsapp :- 9425665944, 7999246560, 9691270207
gmail - pushpanjalitoday@gmail.com

नोट - क्लारसप या मेल करते समय ध्यान रखें भेजने वाले व्यक्ति अपनी फोते और नाम/ पता / अवश्य भेजें